

# Important Questions Class 9th- Nana Saheb ki putri devi maina ko bhasm kar diya |

---

## 1. नाना साहब अपनी पुत्री मैना को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सके?

---

उत्तर

नाना साहब कानपुर में अंग्रेजों के सामने असफल रहे जिसके वजह से उन्हें जल्दी में भागना पड़ा। इस कारण वे अपनी पुत्री मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके।

## 2. मैना 'हे' को कैसे जानती थी? उसने 'हे' से क्या मदद माँगी? पाठ के आधार पर लिखिए।

---

उत्तर

'हे' की पुत्री मेरी मैना की सहेली थी। पहले 'हे' नाना साहब से मिलने उनके महल जाया करते थे और मैना को भी अपनी पुत्री समान प्यार करते थे। इस प्रकार मैना 'हे' को जानती थी। उसने 'हे' से राजमहल के रक्षा की माँग की।

## 3. सेनापति 'हे' ने मदद करने में असमर्थता के पीछे क्या वजह दिया?

---

उत्तर

सेनापति 'हे' ने मदद करने में असमर्थता के पीछे नाना साहब के प्रति अंग्रेज सरकार के कड़े रुख का वजह दिया। उन्होंने कहा कि वह जिस सरकार के नौकर हैं, उसकी आज्ञा वे नहीं टाल सकते।

## 4. सेनापति 'हे' ने जनरल आउटरम से क्या निवेदन किया?

---

उत्तर

सेनापति 'हे' ने जनरल आउटरम से नाना साहब के महल को किसी तरह बचाने का निवेदन किया।

## 5. पाठ के आधार पर जनरल आउटरम के चरित्र का विश्लेषण कीजिये।

---

उत्तर

जनरल आउटरम अंग्रेजी सेना का जनरल था। वह क्रूर, निर्दयी और पत्थर हृदय व्यक्ति था। उसने मैना को राजमहल के अवशेषों पर से रोते हुए देखा और हथकड़ी डालकर गिरफ्तार किया और कानपुर के किले में कैद कर दिया। उसने मैना की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की और उसी किले में मैना को आग जलाकर भस्म कर दिया गया।

## 6. मैना ने जनरल आउटरम से क्या प्रार्थना की?

---

उत्तर

मैना ने जनरल आउटर से कुछ वक्त और देने की प्रार्थना की ताकि वह राजमहल के अवशेषों पर जी भर कर रो ले।

## 7. मैना सैनिकों के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही थी?

---

उत्तर

मैना महल के टूट जाने से दुःख में डूबी थी। वह अपने ख्यालों में खोयी थी। उसे अपने हालात का आभास ना था और ना ही कोई डर था इस कारण वह सैनिकों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही थी।

## 8. ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेनापति 'हे' की किस बात पर हँसी हुई?

---

उत्तर

ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेनापति 'हे' के रिपोर्ट में लिखी हुई उस बात पर हँसी हुई जिसमें उन्होंने नाना की कन्या मैना पर दया दिखाने की बात कही थी।

## 9. अंग्रेजों का नाना साहब के प्रति इतना क्रूर रवैया क्यों था? पाठ के आधार पर लिखिए।

---

उत्तर

नाना साहब अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। वे कानपुर में हुए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के शीर्ष नेता थे। कानपुर में हुए अंग्रेजों के हत्याकाण्ड को उन्होंने करवाया था। इस कारण अंग्रेजों का नाना साहब के प्रति इतना क्रूर रवैया था।

## 10. महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनीस के पत्र में क्या छपा?

---

उत्तर

महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनीस के पत्र में छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकाण्ड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गयी।